

उत्तरांचल शासन

न्याय विभाग

संख्या: 17-एक(5)/न्याय अनुभाग/2003


देहरादून: दिनांक: 29 जुलाई, 2003

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या: 14-एक(5)/न्याय अनुभाग/2003, दिनांक 29.7.2003 द्वारा गठित\* जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु नियम 11 के उपनियम 3(4) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा० कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निम्नलिखित तालिका में दर्शित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण का गैर सरकारी सदस्य नामित किये जाने की राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-


क्र.सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	नामित होने वाले सदस्यों का विवरण
1	2	3
1	अल्मोड़ा	1- डा० रामशेर सिंह विष्ट (सामाजिक कार्यकर्ता) एल.आर. रोड, अल्मोड़ा। 2- श्री पी.सी.तिवारी(सा.कार्य., एड., पत्रकार), धारानौला, अल्मोड़ा। 3- सुश्री लीला टम्टा (सा.कार्य., अनु.जाति)टम्टा मोहल्ला, अल्मोड़ा।
2	बागेश्वर	1- श्री गोविन्द सिंह भण्डारी (एडवोकेट) बागेश्वर। 2- श्री श्याम लाल टम्टा, (सा.कार्य., अनु.जाति) बागेश्वर। 3- श्रीमती धना कोरंगा (सा.कार्य.)बागेश्वर।
3	चमोली	1- श्री जी. माधवा(सा.कार्य.) कर्णप्रयाग, चमोली। 2- श्रीमती सरला विष्ट(सा.कार्य.) सुभाष नगर, गोपेश्वर। 3- श्री पी.पी.पुरोहित(सा.कार्य., एडवोकेट)
4	चम्पावत	1- श्रीमती मंजु तड़ागी(सा.कार्य.) कनलगांव, चम्पावत। 2- श्री हेतराम आर्य(सा.कार्य., अनु.जाति) पुनेठी, चम्पावत। 3- श्रीमती नेरू वर्मा (सा.कार्य., पि.जाति) चम्पावत।
5	देहरादून	1- श्री अविनन्दा (सा.कार्य., एडवोकेट) देहरादून। 2- श्रीमती अंजली गोसाई (सा.कार्य., एडवोकेट) देहरादून। 3- श्री योगानाथ सलूजा (सा.कार्य.) देहरादून।
6	हरिद्वार	1- डा. राजय कौशिक (सा.कार्य., शिक्षविद्) गुरुकुल, ज्वालापुर 2- श्रीमती रातोप चौहान (सा.कार्य.) कनखल, हरिद्वार। 3- डा. एम. के. अग्रवाल (सा.कार्य., चिकित्सक) सिटी हॉस्पिटल, हरिद्वार।
7	नैनीताल	1- श्री जीम प्रकाश शाह (एडवोकेट) नैनीताल। 2- श्री मन्म प्रसाद (एडवोकेट, अनु.जाति) नैनीताल। 3- डा. शीला रजवार (सा.कार्य.) हल्द्वानी।
8	पौड़ी गढ़वाल	1- श्री पी.पी.काला (सा.कार्य., एडवोकेट) पौड़ी। 2- श्री ताफिज अब्दुल बहीद (सा.कार्य., अल्पसंख्यक) पौड़ी। 3- श्रीमती माधवी लता धनाई (सा.कार्य.) पौड़ी।
9	पिथौरागढ़	1- श्री शीला राम शर्मा (एडवोकेट) चण्डाघर, पिथौरागढ़। 2- श्रीमती मीनू मोहरा (सा.कार्य.) भदेलभाडा, पिथौरागढ़। 3- श्री भगवत सिंह टोलिया (सा.कार्य./अनु.जनजाति) धारचूला, पिथौरागढ़।

10	रुद्रप्रयाग	1- श्रीमती गीता शाह (सा.कार्य.) रुद्रप्रयाग । 2- श्रीमती शैला रानी (सा.कार्य.) अगस्तमुनी, रुद्रप्रयाग । 3- श्री राजेन्द्र बाल (सा.कार्य., एडवोकेट) रुद्रप्रयाग ।
11	टिहरी गढ़वाल	1- श्री राजेन्द्र सिंह डोटियाल (एडवोकेट) 2- श्री अनुसूया प्रसाद चागवाड़ी (एडवोकेट) टिहरी गढ़वाल । 3- श्री मतेन्द्र दत्त बहुगुणा (एडवोकेट) टिहरी गढ़वाली ।
12	ऊधमसिंह नगर	1- डा. गिरीराज शाह (से.नि.पु.महा.नि., सा.कार्य.) शैलजा फार्म, रुद्रपुर । 2- श्रीमती प्रेमलता सिंह (अध्यापक पन्तनगर वि.वि., सा.कार्य.) रुद्रपुर । 3- श्री डी.डी. गुणवन्त (एडवोकेट) रुद्रपुर ।
13	उत्तरकाशी	1- श्री जय सिंह मेहर (सा.कार्य., भूतपूर्व सैनिक) उत्तरकाशी । 2- श्री विजय सिंह राणा (सा.कार्य.) उत्तरकाशी । 3- श्रीमती सुभा विष्ट (सा.कार्य.) मुख्य बाजार, उत्तरकाशी ।

आज्ञा से,  
  
( बी० लाल )  
सचिव ।

संख्या: 17-एक(5)(1)/न्याय अनुभाग/2003, तददिनांक ।


प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि ये कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने कष्ट करें और अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियां इस अनुभाग को भी भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,  
  
( यू०सी० ध्यानी )  
अपर सचिव ।

संख्या: 17-एक(5)(2)/न्याय अनुभाग/2003, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 2- सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरांचल, नैनीताल ।
- 3- सम्स्त जिला न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
- 4- सम्स्त सदस्यगण, सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरांचल ।
- 5- सम्स्त बरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
- 6- नियुक्ति अनुभाग/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,  
  
( यू०सी० ध्यानी )  
अपर सचिव ।